



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 253) पटना, वृहस्पतिवार, 6 मार्च 2014

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

24 फरवरी, 2014

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-05/2012 खंड-I-146—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, जिनके निर्वाचन 30.06.2014 तक देय हैं, का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **परिशिष्ट-1** में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 25.03.2014 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-50 दिनांक 21.01.2014 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.12.2013 निर्धारित की गयी है।

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 28.02.2014 (शुक्रवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-3**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को संलग्न प्रपत्र-2 में तथा निर्वाचन की तिथि को संलग्न प्रपत्र-3 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना दिनांक 25.03.2014 (मंगलवार) को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 30.06.2014 तक निर्वाचन देय

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची :-

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति का नाम	संबद्ध संघ का नाम
1	2	3	4	5
1	समस्तीपुर	बिभुतिपुर	SARPATI	मिथिला
2	समस्तीपुर	बिभुतिपुर	POKHARAPAR	मिथिला
3	समस्तीपुर	बिभुतिपुर	MUSAHARA KERAH MAHILA	मिथिला
4	समस्तीपुर	बिभुतिपुर	MISRAULIYA	मिथिला
5	समस्तीपुर	बिभुतिपुर	BORIYA	मिथिला
6	समस्तीपुर	दलसिंह सराय	MALPUR	मिथिला
7	समस्तीपुर	दलसिंह सराय	BHATGAMA	मिथिला
8	समस्तीपुर	हसनपुर	KHARHIYA	मिथिला
9	समस्तीपुर	खानपुर	KHATUAHA	मिथिला
10	समस्तीपुर	मोहनपुर	ADHLALPUR	मिथिला
11	समस्तीपुर	मोरवा	KAMTAUL	मिथिला
12	समस्तीपुर	पटोरी	AKAUNA	मिथिला
13	समस्तीपुर	पुसा	DIGHRA	मिथिला
14	समस्तीपुर	पुसा	MAHMADDA	मिथिला
15	समस्तीपुर	समस्तीपुर	SURATPUR	मिथिला
16	समस्तीपुर	समस्तीपुर	HARIPUR ALLOTH MAHILA	मिथिला
17	समस्तीपुर	सरायरंजन	LAGMA	मिथिला
18	समस्तीपुर	शिवाजीनगर	RANNA MAHILA	मिथिला
19	समस्तीपुर	उजियारपुर	RAM NAGAR	मिथिला
20	समस्तीपुर	उजियारपुर	RAMPUR SAMTHU	मिथिला
21	समस्तीपुर	उजियारपुर	BHAMRUPUR	मिथिला
22	समस्तीपुर	उजियारपुर	BELARI	मिथिला
23	समस्तीपुर	उजियारपुर	MALIKANA LOHAGIR	मिथिला
24	समस्तीपुर	विद्यापतिनगर	MALKALIPUR	मिथिला
25	समस्तीपुर	वारिसनगर	DHANHAR	मिथिला
26	दरभंगा	बहेरी	BALIYA	मिथिला
27	बेगुसराय	छौड़ाही	BARAIPURA	मिथिला

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति का नाम	संबद्ध संघ का नाम
1	2	3	4	5
28	बेगुसराय	छोड़ाही	SIHMA	मिथिला
29	खगड़िया	खगड़िया	मनबोध टोल	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
30	खगड़िया	खगड़िया	चक्की	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
31	खगड़िया	अलौली	चातर	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
32	खगड़िया	परबत्ता	सलारपुर	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
33	खगड़िया	चौथम	सोनवर्षा घाट	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
34	खगड़िया	गोगरी	बड़ी पैकात	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
35	खगड़िया	अलौली	मोहरा घाट	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
36	खगड़िया	अलौली	लदौड़ा	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
37	बेगुसराय	गढ़पुरा	दुन्ही	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
38	बेगुसराय	भगवानपुर	भीठ	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
39	बेगुसराय	तेघड़ा	परबन्दा	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
40	बेगुसराय	साहेबपुर कमाल	मत्तुनरोई	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
41	बेगुसराय	साहेबपुर कमाल	परोरा	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
42	बेगुसराय	तेघड़ा	मधु० तेरसैया	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
43	बेगुसराय	चे० बरियारपुर	काजीचक	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
44	बेगुसराय	छोड़ाही	हरेरामपुर	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
45	बेगुसराय	बरौनी	मालती	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
46	पटना	मोकामा	हथिदह महेन्द्रपुर	देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद
47	वैशाली	बिदुपुर	म० रजासन	वैशाल पाटलिपुत्र
48	वैशाली	बिदुपुर	म० विशुनपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
49	वैशाली	बिदुपुर	म० अमेर	वैशाल पाटलिपुत्र
50	वैशाली	बिदुपुर	म० कुतुबपुर सैदपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
51	वैशाली	बिदुपुर	धबौली	वैशाल पाटलिपुत्र
52	वैशाली	सहदेई बुजुर्ग	इब्राहिमपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
53	वैशाली	लालगंज	करताहां	वैशाल पाटलिपुत्र
54	वैशाली	लालगंज	सहदुल्लाहपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
55	वैशाली	हाजीपुर	सेन्दुआरी	वैशाल पाटलिपुत्र
56	वैशाली	हाजीपुर	वीरोपुर	वैशाल पाटलिपुत्र

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति का नाम	संबद्ध संघ का नाम
1	2	3	4	5
57	वैशाली	हाजीपुर	दयालपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
58	वैशाली	महनार	जावज डेढ़पुरा	वैशाल पाटलिपुत्र
59	वैशाली	महनार	म० नारायणपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
60	वैशाली	महुआ	खेसरहिया	वैशाल पाटलिपुत्र
61	वैशाली	पातेपुर	चपता	वैशाल पाटलिपुत्र
62	वैशाली	जन्दाहा	पीड़ापुर	वैशाल पाटलिपुत्र
63	वैशाली	जन्दाहा	बुचौली	वैशाल पाटलिपुत्र
64	वैशाली	भगवानपुर	अख्तियारपुर पटेड़ा	वैशाल पाटलिपुत्र
65	वैशाली	राजापाकर	बदनपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
66	वैशाली	राघोपुर	नगरगामा	वैशाल पाटलिपुत्र
67	वैशाली	हाजीपुर	म० सहदुल्लाहपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
68	वैशाली	पटेढ़ी बेलसर	म० जारंग	वैशाल पाटलिपुत्र
69	पटना	बिहटा	म० पैनाल	वैशाल पाटलिपुत्र
70	पटना	नौबतपुर	म० छोटी टंगरैला	वैशाल पाटलिपुत्र
71	पटना	नौबतपुर	साबरचक	वैशाल पाटलिपुत्र
72	पटना	फुलवारीशरीप	धनुकी मिल्की	वैशाल पाटलिपुत्र
73	पटना	मसौढ़ी	सगुनी	वैशाल पाटलिपुत्र
74	पटना	पालीगंज	पिपरदाहा	वैशाल पाटलिपुत्र
75	पटना	दुल्हन बाजार	रकसिया	वैशाल पाटलिपुत्र
76	पटना	दुल्हन बाजार	लाला भदसारा	वैशाल पाटलिपुत्र
77	पटना	दुल्हन बाजार	जितन छपरा	वैशाल पाटलिपुत्र
78	पटना	बिहटा	घोड़टाप	वैशाल पाटलिपुत्र
79	पटना	बिक्रम	हैबसपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
80	पटना	बख्तियारपुर	विधिपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
81	नालन्दा	ईसलामपुर	फजीलापुर	वैशाल पाटलिपुत्र
82	नालन्दा	एकंगरसराय	कुण्डवापर	वैशाल पाटलिपुत्र
83	नालन्दा	एकंगरसराय	ईजोरा विगहा	वैशाल पाटलिपुत्र
84	नालन्दा	एकंगरसराय	भानु विगहा	वैशाल पाटलिपुत्र
85	नालन्दा	चण्डी	महेशपुर	वैशाल पाटलिपुत्र

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति का नाम	संबद्ध संघ का नाम
1	2	3	4	5
86	पटना	नौबतपुर	अनन्तपुर	वैशाल पाटलिपुत्र
87	पटना	नौबतपुर	म० अभरणचक	वैशाल पाटलिपुत्र
88	पटना	नौबतपुर	कोपाकला	वैशाल पाटलिपुत्र
89	पटना	बिहटा	रामतरी	वैशाल पाटलिपुत्र
90	पटना	मसौढ़ी	दुधिचक	वैशाल पाटलिपुत्र
91	मुजफ्फरपुर	गायघाट	खजुरी मोतनाजे	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
92	मुजफ्फरपुर	सकरा	रामपुर भसौन	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
93	मुजफ्फरपुर	सकरा	मालपुर चकहजरत	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
94	मुजफ्फरपुर	मुरौल	ईटहा मानिकपुर	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
95	गोपालगंज	फुलवरिया	मदरवानी	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
96	मुजफ्फरपुर	कटरा	बखरी महिला	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
97	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	रानी खैरा	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
98	मुजफ्फरपुर	सकरा	मछही	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
99	मुजफ्फरपुर	सकरा	जगदीशपुर बद्यनगरी	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
100	मुजफ्फरपुर	औराई	प्रेमनगर भलुरा	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
101	मुजफ्फरपुर	औराई	प्रयागचक महिला	तिरहुत, मुजफ्फरपुर
102	भागलपुर	खरीक	तुलसीपुर	विक्रमशिला
103	मुंगेर	जमालपुर	गढ़ीरामपुर	विक्रमशिला

परिशिष्ट-2

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	28.02.2014 (शुक्रवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	15.03.2014 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	19.03.2014 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	20.03.2014 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	25.03.2014 (मंगलवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	25.03.2014 (मंगलवार) (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-3

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड.....के प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, निबंधन संख्या....., पताके अध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
उपविधि में वर्णित तथा प्राधिकार की अधिसूचना में सन्निहित निदेशों के अनुसार उल्लेख करें।	

(ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक ..
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।
(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 3 बजे के पूर्व तकपर
(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतदान केन्द्र (पुरा पता) में अवस्थित होगा।

(Viii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-
तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

विभिन्न सहकारी/स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला : प्रखंड :
 केन्द्रीय/शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति संबद्ध है : समिति का कार्य विवरण :
 अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या : संवीक्षा की तिथि : DD/MM/YYYY
 समिति का नाम :

क्रमांक	अध्यक्ष पद	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

क्रमांक	मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

[illegible]

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

[illegible]

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल (महिला अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल अभ्यर्थियों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

प्रपत्र-3

विभिन्न सहकारी/स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला :

प्रखंड :

कुल मतदाताओं की संख्या:

मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या :

समिति का नाम :

निर्वाचन की तिथि : DD/MM/YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				
मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव				

*अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

बोर्ड/प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम				अभ्युक्ति
अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	

कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)					
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)					
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 253-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>